



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263423  
CG-DL-E-28052025-263423

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2305]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947

No. 2305]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISHTHA 7, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2025

का.आ. 2359(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2025 होगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में, खंड 3 में, उप-खंड (2) में, मद (i) को समाविष्ट किया जाएगा, नामतः -

“(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए गेहूं:

- व्यापारी/थोक विक्रेता :3000 मीट्रिक टन;
- रिटेलर: प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन।
- बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन बशर्ते अधिकतम मात्रा (कुल दुकानों की संख्या का 10 गुणा) मीट्रिक टन। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है।
- प्रोसेसर : मासिक स्थापित क्षमता के 70% मात्रा को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा, के बराबर

3. उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (<https://evegoils.nic.in/wsp/login> जिसे <https://foodstock.dfpd.gov.in> पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के पोर्टल अर्थात् (<https://evegoils.nic.in/wsp/login> जिसे <https://foodstock.dfpd.gov.in> पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा) पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किए जाएंगे।

[फा. सं. 3/1/2007- नीति -III]

सी. शिखा, संयुक्त सचिव,

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का.आ. संख्या 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का.आ. संख्या 297 (अ) दिनांक 27 फरवरी 2007, का.आ. संख्या 1488 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007, का. आ. संख्या 2566 (अ) दिनांक 12 जून, 2023, का. आ. संख्या 4074 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2023, का. आ. संख्या 5292 (अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2023, का. आ. संख्या 575 (अ) दिनांक 08 फरवरी 2024, का. आ. संख्या 2428 (अ) दिनांक 24.06.2024, का. आ. संख्या 3915 (अ) दिनांक 09.09.2024, का. आ. संख्या 5343 (अ) दिनांक 11.12.2024 और का. आ. संख्या 901 (अ) दिनांक 20.02.2025. के द्वारा संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**  
(Department of Food and Public Distribution)

**ORDER**

New Delhi, the 27th May, 2025

**S.O. 2359(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:-

1. Short Title and Commencement-

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2025

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), item (i) shall be inserted namely:-

“(i) Wheat for a period up to 31<sup>st</sup> March 2026 with following stock limits for all States and Union Territories:

□ Traders/Wholesaler: **3000 MT;**

□ Retailer: **10 MT** for each Retail outlet.

□ Big Chain Retailer: upto **10 MT** for each retail outlet subject to maximum quantity of (10 multiplied by total no. of outlets) MT. This will be the maximum stock that can be held at all their retail outlets and depots put together.

□ Processors: **70% of Monthly Installed Capacity (MIC) multiplied by remaining months of FY 2025-26.**

3. Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal (<https://evegoils.nic.in/wsp/login> which will be migrated in due course of time to <https://foodstock.dfpd.gov.in>) of Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 15 days of issue of this notification.

4. It shall be ensured that Wheat stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. (<https://evegoils.nic.in/wsp/login> which will be migrated in due course of time to <https://foodstock.dfpd.gov.in>).

[F. No3/1/2007 Py-III]

C. SHIKHA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, vide Order No. GSR 104 (E), dated 15th February, 2002 and subsequently amended vide Order No. GSR 490 (E) dated 16th June, 2003 and S.O. No. 1373 (E) dated 29th August, 2006, S.O. No. 297 (E) dated the 27th February 2007 and S.O. No. 1488 (E) dated the 31st August, 2007 and S.O.2566(E) dated-12th June 2023 and S.O.4074(E) dated 14.09.2023 and S.O.5292 (E) dated 08.12.2023, S.O. 575(E) dated 08.02.2024, S.O No.2428 (E) dated 24.06.2024, S.O. No.3915 (E) dated 09.09.2024, S.O 5343 (E) No. dated 11.12.2024 and S.O. No. 901(E) dated 20.02.2025.